

प्रैस नोट

दिनांक 15.07.2021

लूट की घटना में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी समर जादौन उर्फ मोनू थाना जहाँगीराबाद पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही पर लूटे गई चैन का टुकड़ा व अवैध असलहा

मय कारतूस आदि बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री रमेश चन्द के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना जहाँगीराबाद श्री राजीव कुमार सक्सेना के नेतृत्व में दिनांक 14.07.2021 की रात्रि में थाना जहाँगीराबाद पर नियुक्त उ0नि0 सुभाष चन्द्र मय पुलिस फोर्स व स्वाट टीम के संयुक्त रूप से थाना जहाँगीराबाद के क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग मे मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थाना जहाँगीराबाद क्षेत्र का लूट की घटना में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधी चांदौक चौराहे पर आने वाला है। इस सूचना पर दोनों पुलिस टीम संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए चांदौक चौराहे पहुँचकर अभियुक्त के आने का इंतजार करने लगी तभी कुछ देर में बुलन्दशहर की तरफ से अभियुक्त समर जादौन उर्फ मोनू आता दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग कर अवैध असलहा मय कारतूस सहित समय करीब रात्रि 21.00 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्त की निशादेही पर लूटी गयी चैन का एक टुकड़ा शिकारपुर रोड़ पर खंडर पड़े ईंट के एक भट्टे के ऑफिस की दीवार के पास ईंट से दबी एक पन्नी से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- समर जादौन उर्फ मोनू पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी गांव करौली थाना जवां जिला अलीगढ़।

बरामदगी-

- 1- लूटी गयी चैन का टुकड़ा
- 2- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त समर जादौन उर्फ मोनू शातिर किस्म का लुटेरा है जिसने अपने एक अन्य साथी अंशुल पुत्र साहब सिंह निवासी निकट सूट मिल चौराहा बीमानगर थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़ के साथ मिलकर अपाचे मोटरसाईकिल से माह मार्च 2021 में थाना जहाँगीराबाद क्षेत्र के चांदौक दौराहे से कस्बा जहाँगीराबाद निवासी राजकुमार जो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाईकिल से बुलन्दशहर जा रहे थे, से चैन लूटने की घटना कारित की गई थी, जिसमें चैन के कुछ टुकड़े हो गये थे जो हाथ में आये थे। उक्त घटना के संबंध में थाना जहाँगीराबाद पर मुअसं-96/21 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त अंशुल उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त समर जादौन लगातार वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पर मुअसं-555/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

थाना जहाँगीराबाद पुलिस टीम-

- 1- श्री राजीव कुमार सक्सेना प्रभारी निरीक्षक थाना जहाँगीराबाद
- 2- उ0नि0 सुभाष चन्द्र, है0का0 राजेन्द्र सिंह, का0 मोहन सिंह

सर्विलांस/स्वाट टीम (क्राईम ब्रांच)-

- 1- श्री सुधीर कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक स्वाट
- 2- उ0नि0 धीरज राठी, है0का0 विकाश कुमार, है0का0 हरेन्द्र, का0 वसीम, का0 परवली, का0 शेखर, है0का0 चालक जितेन्द्र त्यागी